



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022

माघ 22, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 199/नौ-1-2022-01परि0-21

लखनऊ, 11 फरवरी, 2022

अधिसूचना

प0आ0-33

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9 क की उपधारा (5) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची के अनुरूप जनपद महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार में अध्यक्ष पद को आरक्षित/आवंटित करने के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 164/नौ-1-2022-01परि0-21, दिनांक 2 फरवरी, 2022 जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 197/9-1-2022-01परि0-21, दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 9 क की उपधारा (5) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 1994 (यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची के अनुरूप जनपद महाराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार में अध्यक्ष पद के स्थान को आरक्षित/आवंटित किया जाता है।

अनुसूची

नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज के अध्यक्ष पद का आरक्षण

क्रमांक	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	2	3	4
1	जनपद महाराजगंज	नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार	अन्य पिछड़ा वर्ग

आज्ञा से,
डॉ० रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।